

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 179]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 12 अप्रैल 2014—चैत्र 22, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2014

फा. क्र. 17(ई)-61-2014-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला रायसेन, आगर मालवा एवं हरदा (कुल 3 जिले) हेतु लोक सभा निर्वाचन, 2014 में निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिए संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को दिनांक 9 मार्च 2014 से दिनांक 16 मई 2014 तक सम्पूर्ण जिले के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वर्मा, सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-रायसेन

क्र.	जिले का नाम	अधिकारी का नाम	पदनाम विभाग	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां दिया जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	रायसेन	श्री ए.पी. सिंह 9479647523	सहायक वन संरक्षक उप प्रबंधक, जिला यूनियन, रायसेन.	वन मण्डल कार्यालय, रायसेन	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए
2	रायसेन	श्री सुखवीर सिंह छारी 8827941313	सहायक भूगर्भ संरक्षण अधिकारी.	उप संभाग, रायसेन	द्वितीय श्रेणी	रायसेन जिले के लिए

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	रायसेन	श्री रजनीश शुक्ला 9425301653	रेंजर आफिसर, वन विभाग.	पश्चिमी सिलवानी	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए
4	रायसेन	श्री पी.के. रजक 9424796202	सहायक वन संरक्षक	उप वनमंडल अधिकारी, उत्पादन, सिलवानी.	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए
5	रायसेन	श्री आर.के. चौहान 9981613289	सहायक उप निरीक्षक	कृषि उपज मंडी, बरेली	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए
6	रायसेन	श्री कन्हैयालाल रजक 9893998725	सहायक उपनिरीक्षक	कृषि उपज मंडी, उदयपुरा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए
7	रायसेन	श्री अनीस अली 9300890698	सहायक उप निरीक्षक	कृषि उपज मंडी, औंबेदुल्लागंज.	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए
8	रायसेन	श्री अरुण कुमार रैकवार 9424790721	वनक्षेत्रपाल	सुल्तानपुर, सामान्य वन मंडल, औंबेदुल्लागंज.	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए
9	रायसेन	श्री पी.एस. रघुवंशी 9752428985	रेंजर आफिसर	वन क्षेत्र, गौहरगंज	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए
10	रायसेन	श्री कमलेश मालवीय 9424484551	वनक्षेत्रपाल	चिकलोदकला सामान्य वनमण्डल, औंबेदुल्लागंज.	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए
11	रायसेन	श्री मनीष उइके	सहायक उप निरीक्षक	कृषि उपज मंडी, गैरतगंज	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए
12	रायसेन	श्री नईम उद्दीन खां 8109934184	सहायक उप निरीक्षक	कृषि उपज मंडी, बेगमगंज	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए
13	रायसेन	श्री खुमान सिंह आदिवासी 9424796189	उप वनक्षेत्रपाल	परिक्षेत्र उत्पादन, सिलवानी	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए
14	रायसेन	श्री रामगोपाल गौड़	उप वनक्षेत्रपाल	परिक्षेत्र उत्पादन, सिलवानी	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए
15	रायसेन	श्री सतीश निकोसे	उप यंत्री	औद्योगिक विकास केन्द्र AKBN, मंडीदीप.	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए
16	रायसेन	श्री सुरेश बरोले 9424790722	वन क्षेत्रपाल	परिक्षेत्र, सुल्तानपुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए
17	रायसेन	श्री सुजीत सिंह 9039073392	सहायक उप निरीक्षक	कृषि उपज मंडी समिति, रायसेन.	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए
18	रायसेन	श्री देवीसिंह धुर्वे 9685409891	उप वनक्षेत्रपाल	परिक्षेत्र उत्पादन, सिलवानी	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए
19	रायसेन	श्री बाला प्रसाद कोली 9627436294	निरीक्षक	कृषि उपज मंडी समिति, सिलवानी.	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए
20	रायसेन	श्री राजेन्द्र सिंह रघुवंशी	सहायक उप निरीक्षक	कृषि उपज मंडी समिति, सिलवानी.	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए

क्र.	जिले का नाम	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिये कार्यपालिक दंडाधिकारी की शक्तियां दिथा जाना प्रस्तावित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	रायसेन	श्री रविन्द्र सक्सेना (9424790650)	वन मंडलाधिकारी, (सामान्य).	वन मण्डल कार्यालय, (सामान्य) रायसेन.	प्रथम श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए
2	रायसेन	श्री ए. के. बडोनिया (9425119940)	वन मंडलाधिकारी, उत्पादन.	वन मण्डल कार्यालय, (उत्पादन) रायसेन.	प्रथम श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए
3	रायसेन	श्री के. पी. शर्मा (9424790710)	वन मंडलाधिकारी, (सामान्य).	वन मण्डल कार्यालय, (सामान्य) औबेदुल्लागंज.	प्रथम श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए
4	रायसेन	श्री एम. एल. मांझी (9893972979)	पशु सहा. शल्यज्ञ	के.व्ही.एस., बाड़ी	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए
5	रायसेन	डॉ. कमलेश डामोट (955441255)	पशु चिकित्सक शल्यज्ञ	सुल्तानपुर संलग्न बरेली	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए
6	रायसेन	डॉ. एस. डी. पांडे (9179983820)	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी.	औबेदुल्लागंज	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए
7	रायसेन	डॉ. आर. के. शुक्ला (9993234110)	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी.	सांची	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए
8	रायसेन	श्री संदीप द्विवेदी (9755846802)	प्राचार्य	कौशल विकास केन्द्र, बरेली	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए
9	रायसेन	श्री पंकज पांडेय (9981292979)	प्राचार्य	कौशल विकास केन्द्र, सांची	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए
10	रायसेन	श्री एम. के. नंदनवार (9827657024)	अधीक्षक	आई.टी.आई., रायसेन	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए
11	रायसेन	श्री पी. के. भारद्वाज (9425023176)	सहायक जिला आबकारी अधिकारी.	बरेली मंडल, बरेली	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण रायसेन जिले के लिए

संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी (भारत निर्वा.), रायसेन.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-आगर मालवा

1. श्री एस. के. चतुर्वेदी, सहा. जिला आबकारी अधिकारी, आगर 94253-20109
2. श्री एल.पी. रजक, स. मतस्य अधि., आगर 94250-83490
3. श्री निज्जु खान, प्राचार्य, क.हा.से., बडोद 96757-71938
4. श्री मुकेश भटनागर, व.स.नि., आगर 99813-27270
5. श्री एस.पी. सरोठिया, वरिष्ठ उपयंत्री, जल संसाधन, आगर
6. श्री मांगीलाल जोगचंद, बीईओ, बडोद 9755350914
7. श्री दिनेश गडरिया, खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी, सुसनेर
8. श्री अशोक कुमार गोयल, प्राचार्य, शा.उ.मा.धि., बडोद 96699-57585
9. श्री मंगलेश भटनागर, ए.एस.ओ., महिला एवं बाल विकास, सुसनेर
10. श्री एम.के. नागदेवानी, उपयंत्री, लोक स्वास्थ्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सुसनेर 9425083212
11. श्री पी.सी. खेरवार, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, आगर मालवा.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-हरदा

सरल क्रमांक	जिले का क्रमांक	जिले का नाम	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालिक दंडाधिकारी की शक्तियां दिया जाना प्रस्तावित है (संपूर्ण जिले के लिए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	30	हरदा	श्री राजेश सिंघल	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग, हण्डिया नहर संभाग, टिमरनी.	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
2	30	हरदा	श्री जी.सी. गौर	अनुविभागीय अधिकारी, (वि./यां).	लोक निर्माण विभाग, हरदा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
3	30	हरदा	श्री अखिलेश चतुर्वेदी	परियोजना अधिकारी	बाल विकास परियोजना, ग्रामीण-2.	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
4	30	हरदा	सुश्री राखी सैय्याम	परियोजना अधिकारी	बाल विकास परियोजना, ग्रामीण-1.	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
5	30	हरदा	श्रीमति मंजुश्री मण्डराई	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, हरदा	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
6	30	हरदा	श्री प्रदीप गढ़वाल	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, हरदा	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
7	30	हरदा	श्री अलकेश ठाकुर	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, हरदा	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए

अपर कलेक्टर हेतु कलेक्टर.

सरल क्रमांक	जिले का क्रमांक	जिले का नाम	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालिक दंडाधिकारी की शक्तियां दिया जाना प्रस्तावित है (संपूर्ण जिले के लिए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	30	हरदा	श्री विजय कुमार नरबरिया	अति. जिला परियोजना समन्वयक.	शिक्षा विभाग, हरदा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
2	30	हरदा	श्री जी.चंदेलकर	सहायक संचालक, मत्स्य.	मत्स्य विभाग, हरदा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
3	30	हरदा	श्री सी.आर. रात्रे	अनुविभागीय अधिकारी	लोक निर्माण विभाग, खिरकिया	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
4	30	हरदा	श्री उमेश कुमार विश्वकर्मा	व्याख्याता	शास. पॉलिटेक्निक कालेज, हरदा.	प्रथम	संपूर्ण जिले के लिए
5	30	हरदा	श्री एस. के. पचौरी	सहायक प्रबंधक	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, हरदा.	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
6	30	हरदा	श्री आर. बी. सिद्ध	उप वनमंडलाधिकारी	वन मंडल सामान्य दक्षिण, हरदा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	30	हरदा	श्री एम. के. सारन	व्याख्याता	शास. पॉलिटेक्निक कालेज, हरदा	प्रथम	संपूर्ण जिले के लिए
8	30	हरदा	श्री रविन्द्र कुमार यदुवंशी	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग, टिमरनी	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
9	30	हरदा	श्री अरविन्द कुमार काशिव	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग, टिमरनी	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
10	30	हरदा	श्री रतनलाल राजपूत	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग, टिमरनी	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
11	30	हरदा	श्री आर.बी. गुर्जर	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, हरदा.	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
12	30	हरदा	श्री मनोहर लाल मोरछले	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग, हरदा	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
13	30	हरदा	श्री विजेन्द्र सिंह चौहान	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग, हरदा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
14	30	हरदा	श्री आर. एस. पाठक	वन परिक्षेत्राधिकारी	वन विभाग सामान्य, रहटगांव	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
15	30	हरदा	श्री बाबूलाल मुवेल	वन परिक्षेत्राधिकारी	वन विभाग उत्पादन, रहटगांव	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
16	30	हरदा	श्री संजय जैन	वन परिक्षेत्राधिकारी	वन विभाग उत्पादन, टेमागांव	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
17	30	हरदा	श्री सजनलाल पटेल	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग, टिमरनी	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
18	30	हरदा	श्री मनमोहन शर्मा	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग, हरदा	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
19	30	हरदा	श्री कालूराम बिलारे	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग, हरदा	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
20	30	हरदा	श्री व्हाय. एस. यादव	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग, हरदा	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
21	30	हरदा	श्री फूलसिंह मालवीय	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी.	भूमि संरक्षण, हरदा	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
22	30	हरदा	श्री आर. एस. चौधरी	उपयंत्री	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, हरदा.	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
23	30	हरदा	श्री अख्तर हुसैन खान	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग, खिरकिया	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
24	30	हरदा	श्री एम. एस. चौहान	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग, खिरकिया	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
25	30	हरदा	श्री जीवनलाल रात्रे	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग, टिमरनी	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
26	30	हरदा	श्री मुकेश कुमार यादव	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग, टिमरनी	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
27	30	हरदा	श्री जे. एस. ठाकुर	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, हरदा.	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
28	30	हरदा	श्री सत्यनारायण गांगोल	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग, हरदा	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
29	30	हरदा	श्री डी. के. मिश्रा	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग, हरदा	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
30	30	हरदा	श्री आर. डी. पाटिल	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग, हरदा	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
31	30	हरदा	श्री कृष्ण कुमार गुर्जर	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग, हरदा	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
32	30	हरदा	श्री के. एस. मुजाल्दा	श्रम पदाधिकारी	श्रम विभाग, हरदा	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
33	30	हरदा	श्री आर. के. शर्मा	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, हरदा.	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
34	30	हरदा	श्री बीरेन्द्र सिंह तोमर	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग, हरदा	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
35	30	हरदा	श्री सतीश पामेजा	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, हरदा	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
36	30	हरदा	श्री राजकुमार सोनी	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग, टिमरनी	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
37	30	हरदा	श्री ओमप्रकाश भायरे	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग, हरदा	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
38	30	हरदा	श्री व्ही. के. वर्मा	वन परिक्षेत्राधिकारी	वन विभाग सामान्य, मगरधा	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
39	30	हरदा	श्री एल. पी. बिलारे	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, हरदा.	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
40	30	हरदा	श्री किशोर कुमार कनोजिया	प्रशिक्षण अधिकारी	आई.टी.आई., हरदा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
41	30	हरदा	श्री हरिओम अग्रवाल	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग, खिरकिया	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
42	30	हरदा	श्री के. पी. झारिया	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, हरदा.	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
43	30	हरदा	श्री डी. के. शास्त्री	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग, खिरकिया	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
44	30	हरदा	श्री एम. एल. मालवीय	सचिव	कृषि उपज मंडी समिति, टिमरनी	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
45	30	हरदा	श्री नंदलाल फूलरे	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग, टिमरनी	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
46	30	हरदा	श्री सुधाकर जोशी	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग, टिमरनी	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
47	30	हरदा	श्री सुरेश चंद मांदलिया	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग, टिमरनी	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
48	30	हरदा	श्री चन्द्रशेखर पाण्डे	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग, टिमरनी	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
49	30	हरदा	श्री हेमन्त श्रीमाली	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	सहकारिता विभाग, हरदा	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
50	30	हरदा	श्री आर. के. रघुवंशी	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग, हरदा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
51	30	हरदा	श्री शैलेन्द्र सिंह पांवर	नाप तौल निरीक्षक	नाप तौल विभाग, हरदा	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
52	30	हरदा	श्री आलोक दुबे	सहायक पंजीयक	सहकारिता विभाग, हरदा	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
53	30	हरदा	श्री एन. एस. सोलंकी	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग, खिरकिया	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
54	30	हरदा	श्री सी. बी. तिवारी	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग, खिरकिया	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
55	30	हरदा	श्री पी. के. सोमानी	प्रबंधक	म.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, हरदा.	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
56	30	हरदा	श्री एच. एल. मेहर	महाप्रबंधक	जिला उद्योग केन्द्र, हरदा	प्रथम	संपूर्ण जिले के लिए

अपर कलेक्टर हेतु कलेक्टर.